



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आश्विन 1933 (श0)
(सं0 पटना 590) पटना, शुक्रवार, 21 अक्टूबर 2011

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना

आदेश

19 अक्टूबर 2011

सं0 7/नि.(विधि)-31/2003-4978—विभागीय आदेश ज्ञापांक 4033, दिनांक 21 जुलाई 2010 द्वारा श्री दीनानाथ मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु परिसमापनाधीन मधेपुरा-सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधेपुरा का सहायक परिसमापक नियुक्त किया गया था, परन्तु श्री मिश्र के दिनांक 31 जुलाई 2011 के अपराहन से ऐच्छिक सेवा-निवृत्ति हो जाने के फलस्वरूप उक्त परिसमापनाधीन बैंक के परिसमापन कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु “सहायक परिसमापक” की नियुक्ति किया जाना आवश्यक है।

अतएव मैं राजेश कुमार, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के नियम-64(2) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री अरविन्द कुमार पासवान, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा (जो सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज के अतिरिक्त प्रभार में भी हैं) को परिसमापनाधीन मधेपुरा-सुपौल केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., मधेपुरा का “सहायक परिसमापक” नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश तत्काल के प्रभाव से लागू होगा।

आदेश से,
राजेश कुमार,
निबंधक, सहयोग समितियाँ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 590-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>